



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 422]
No. 422]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 27, 2008/अग्रहायण 6, 1930
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 27, 2008/AGRAHAYANA 6, 1930

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2008

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2008

सं. 3/4/2008-पब्लिक.—भारत सरकार अत्यन्त दुःखपूर्वक यह उद्घोषित करती है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री वी. पी. सिंह का 27 नवम्बर, 2008 को 2.45 अपराह्न अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली में निधन हो गया है।

No. 3/4/2008-Public.—The Government of India announce, with profound sorrow, the death of Shri V.P. Singh, Former Prime Minister of India at 2.45 PM on November 27, 2008 at Apollo Hospital, New Delhi.

मधुकर गुप्ता, सचिव

MADHUKAR GUPTA, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2008

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2008

निधन-सूचना

OBITUARY

सं. 3/4/2008-पब्लिक.—भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री वी. पी. सिंह का 27 नवम्बर, 2008 को निधन हो गया है।

2. श्री वी. पी. सिंह का जन्म 25 जून, 1931 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ और उन्होंने इलाहाबाद और पुणे विश्वविद्यालयों से शिक्षा ग्रहण की।

3. श्री वी. पी. सिंह एक विद्वान व्यक्ति थे और गोपाल विद्यालय, इंटरमीडिएट कॉलेज, कोरांव, इलाहाबाद के प्रतिष्ठित संस्थापक भी थे। वे 1947-48 में उदय प्रताप कॉलेज, वाराणसी में छात्र संघ के अध्यक्ष और इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने 1957 में भूदान आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की और गाँव पसना, जिला इलाहाबाद में एक सुव्यवस्थित फार्म दान में दिया।

4. श्री वी. पी. सिंह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य; 1969 से 71 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कार्यकारी समिति के सदस्य तथा 1969 से 71 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। वे 1970 से 71 तक कांग्रेस विधान मण्डल दल के सचेतक; 1971 से 74 तक लोक सभा के सदस्य; अक्टूबर, 1974 से नवम्बर, 1976 तक केन्द्रीय वाणिज्य उप-मंत्री; नवम्बर, 1976 से मार्च, 1977 तक केन्द्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री; जनवरी, 1980 से जुलाई, 1980 तक लोक सभा के सदस्य रहे। वे जून, 1980 से जून, 1982 तक उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री; नवम्बर, 1980 से जून, 1981 तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य; जून, 1981 से जुलाई, 1983 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे।

5. श्री वी. पी. सिंह 29 जनवरी, 1983 को केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री बने और उन्होंने 15 फरवरी, 1983 से आपूर्ति विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। वे जुलाई, 1983 से अप्रैल, 1988 तक राज्य सभा के सदस्य रहे। 01 सितम्बर, 1984 को उन्हें उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया और 31 दिसम्बर, 1984 को वे केन्द्रीय वित्त मंत्री बने। 1984 से 1987 तक की अवधि के दौरान उन्होंने वित्त मंत्री, वाणिज्य एवं आपूर्ति मंत्री तथा रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला। जून, 1988 में वे पुनः लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए और राष्ट्रीय मोर्चा के संयोजक बने जो कि राजनैतिक दलों का एक समूह था और उसी वर्ष उन्होंने जनता दल की स्थापना की।

6. श्री वी. पी. सिंह नवम्बर, 1989 में लोक सभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए और 2 दिसम्बर, 1989 से 10 नवम्बर, 1990 तक भारत के छठे प्रधानमंत्री रहे। जून, 1991 में वे दसवीं लोक सभा के लिए चुने गए।

7. श्री वी. पी. सिंह अपने पीछे अपनी पत्नी और दो पुत्र छोड़ गए हैं।

No. 3/4/2008-Public.—Shri V. P. Singh, former Prime Minister of India passed away on November 27, 2008.

2. Born on June 25, 1931 at Allahabad, Uttar Pradesh, Shri V. P. Singh was educated at the Allahabad and Pune universities.

3. A scholarly man, Shri V. P. Singh was the proud founder of Gopal Vidyalaya, Intermediate College, Koraon, Allahabad. He was the President of the Students Union at Uday Pratap College, Varanasi in 1947-48 and was also the Vice-President, Allahabad University Students Union. He actively participated in the Bhoodan movement in 1957 and donated a well-established farm in village, Pasna, District Allahabad.

4. Shri V. P. Singh was a member of the All India Congress Committee; Executive Body, Allahabad University from 1969-71 and Legislative Assembly, Uttar Pradesh 1969-71. He was the Whip, Congress Legislative Party, 1970-71; MP, Lok Sabha 1971-74; Union Deputy Minister of Commerce, October 1974-November 1976; Union Minister of State for Commerce, November 1976-March 1977; MP, Lok Sabha, January 1980 to July 1980. He was the Chief Minister of Uttar Pradesh, June 1980-June 1982; Member, Legislative Council, Uttar Pradesh, November 1980-June 1981; Member, Legislative Assembly, Uttar Pradesh, June 1981-July 1983.

5. As Union Minister of Commerce in January 29, 1983, Shri V. P. Singh also held additional charge of the Department of Supply from February 15, 1983. He was a Member of Parliament in the Rajya Sabha from July 1983 to April 1988. On September 1, 1984, he was elected President, Uttar Pradesh Congress Committee and on December 31, 1984, he became the Union Finance Minister. During the period 1984 to 1987, he held the portfolios of Finance Minister, Minister of Commerce & Supply and Defence Minister. In June 1988, he was re-elected to the Lok Sabha, became the convenor of the National Front, an amalgamation of political parties and during the same year, he formed the Janata Dal.

6. In November 1989, Shri V. P. Singh was re-elected to the Lok Sabha and became the sixth Prime Minister of India for the term December, 2, 1989 to November 10, 1990. In June 1991, he was elected to the 10th Lok Sabha.

7. Shri V. P. Singh is survived by his wife and two sons.

मधुकर गुप्ता, सचिव

MADHUKAR GUPTA, Secy.